

**Before Notary/ Executive Magistrate  
Barh (Patna)  
AFFIDAVIT**

No E 2020 79  
Authorised [Illegible] of the  
Notaries Act 1992 (Act III of 1952)  
22530/ 17/8/21



I, [Redacted], Po-Bhatgaon Police Station- Barh District- Patna State- Bihar,  
hereby certify the following facts to be true and sincere.

- I am a permanent resident of the above-mentioned address.
- That my husband, [Redacted], died of COVID-19 on April 10, 2021 in Big Apollo Spectra Hospital in Patna.  
That after my husband's death, the following members of my family have remained in my family:

[Signed]  
17/08/2021

serial number	Name	Age	Relation to the deceased	Widow/Unmarried
1.	Ishita Sharma	32 years	Wife	Widow




- That the above-mentioned family lineage is entirely accurate. In the interest of justice, whose family list certificate is provided will be essential and justifiable.

The aforementioned items were written according to my directions, which I read and had others read, listened to, understood, and signed once everything was correct.

A person who administers the oath

(Signed)



[Redacted]  
En.No. 2387102  
05/08/2021

(AFFIDAVIT)

Certified Translation 19 JAN 2022



For ANAN TRANSLATIONS  
*Rupak*  
Prop./Auth. Sign.

Before Notary/ Executive Magistrate  
रामदास सिंह प्रमाणक/कायपालक दंडाधिकारी

Barh (Patna) बाढ़ (पटना)

AFFIDAVIT

शपथ-पत्र

No E 2020

79

Authorized (Sub-Section) (C) of the  
Notaries Act 1952 (Act LIII of 1952)

21530  
17/8/21

कायपालक  
रामदास सिंह

[Redacted Name]

[Redacted Name]

थाना - बाढ़

जिला-पटना राज्य -बिहार, निम्नलिखित बातों की घोषणा सत्य एवं  
निष्ठापूर्वक करती हूँ।

यह कि मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूँ।

2. यह कि मेरे पति स्व० राहुल कुमार पिता गधे श्याम प्रसाद सिंह मेरे पति  
के जिसकी मृत्यु दिनांक 10.04.2021 ई० को बिग अपॉलो स्पेक्ट्रा  
होस्पिटल पटना में कोविड -19 से हो गया है।

यह कि मेरे पति के मरणोपरान्त मेरे परिवार में निम्नलिखित सदस्य छोड़  
गये हैं जो इस प्रकार हैं।

क्रम सं०	नाम	उम्र	पूतक के संबंध	वि०अवि०
1.	इशिता शर्मा	32 वर्ष	पत्नी	विधवा

4. यह कि उक्त वर्णित पारिवारिक सूची पूर्णतः सही एवं सत्य है। जिसका  
पारिवारिक सूचि प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय जो न्याय हित में आवश्यक  
वो न्यायोचित होगा।

उपरोक्त बातें मेरे निर्देशानुसार लिखी गयी हैं जिसे मैं पढ़ कर

पढ़वाकर सुन समझ लिया तथा सही पाकर अपना हस्ताक्षर बना दिया।

शपथकर्ता

[Redacted Signature]  
21 No. 238 T/02  
05/08/2021

[Redacted Signature]

(AFFIDAVIT)



ANANT TRANSLATIONS  
Prop./Auth. Sign.



## Certificate of Translation

**Date:** 19<sup>th</sup> January, 2022

**Translated document(s):** Affidavit.

**Source Language:** Hindi

**Target Language:** English

We, Anan Translations, a professional translation agency, hereby certify that the above mentioned document(s) has/have been translated by experienced and qualified translator to the best of his/her ability, that the translation is a true and correct translation of the original document(s) that best reflects the intention and meaning of the original text.

This certificate relates to the accuracy of the translation only and not to the original content of the document. Anan Translations is not liable and shall not be held liable for the consequences of any use of the translation by the customer or any other party.

**Name of Translator:** [REDACTED]

**Verified by:** [REDACTED]



For ANAN TRANSLATIONS  
*Rupali Jaiswal*  
Prop./Auth. Sign.